

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम तिमाही रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-मार्च 2023 में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 1,081 टन हुई है जो 2022 की पहली तिमाही से 13% कम है।
- केंद्रीय बैंकों ने जनवरी-मार्च 2023 में 228 टन सोना खरीदा, जो 2000 तक के आंकड़ों में जनवरी-मार्च की किसी भी अवधि से अधिक है: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल।
- वित्त वर्ष (अप्रैल 2022-जनवरी 2023) के दौरान, कृषि निर्यात 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान यानी अप्रैल 2021 से 2020 तक के 40.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से 6.04% अधिक है।
- भारत का मैनुफैक्चरिंग पीएमआई मार्च के 56.4 से बढ़कर अप्रैल में 57.2 हो गया।
- सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफाल कर में कटौती की है जबकि डीजल और पेट्रोल पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्र ने 2 मई से प्रभावी कच्चे तेल पर विंडफॉल

कर को 6,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,100 रुपये प्रति टन कर दिया।

- 2023 की मार्च तिमाही में भारत में सोने की मांग 10 तिमाहियों में 17% कम होकर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार रिकॉर्ड-उच्च कीमतों के कारण जून और सितंबर तिमाहियों के दौरान भी इसके कमजोर रहने की संभावना है।
- भारतीय आयात में वृद्धि के कारण रूसी समुद्री कच्चे तेल का निर्यात 12 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल में रूस-मूल के समुद्री कच्चे तेल का निर्यात औसतन 3.76 मिलियन बैरल/दिन था, जो अप्रैल 2022 के बाद से सबसे अधिक है और 3.1 मिलियन बैरल/दिन का औसत युद्ध से पहले के स्तर से 22% अधिक है।
- चिली कॉपर कमीशन ने वैश्विक बाजारों में कमजोर अमेरिकी डॉलर, अनुमानित आपूर्ति जोखिम और चीन में अनुमानित 5% आर्थिक विकास का हवाला देते हुए 2023 में तांबे की औसत कीमतों के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 3.90 डॉलर प्रति पाउंड कर दिया।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	28.04.23	04.05.23	बदलाव (%)
हल्दी	6728.00	7428.00	10.40%
ग्वारगम	10943.00	11409.00	4.26%
ग्वारसीड	5470.00	5670.00	3.66%
जीरा	43735.00	45290.00	3.56%
धनिया	6510.00	6692.00	2.80%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	28.04.23	04.05.23	बदलाव (%)
मक्का	1903.00	1816.00	-4.57%
स्ऑल	47060.00	45400.00	-3.53%
जौ	2184.00	2154.00	-1.37%
धान	4469.00	4413.00	-1.25%
कॉटनसीडऑयलकेक	2816.00	2790.00	-0.92%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	28.04.23	04.05.23	बदलाव (%)
निकल	2000.00	2065.00	3.25%
सोना	60299.00	61940.00	2.72%
सोना गिनी	47977.00	49265.00	2.68%
सोना पेटल	6005.00	6160.00	2.58%
सोना एम	59973.00	61447.00	2.46%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	28.04.23	04.05.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	211.70	191.00	-9.78%
कच्चा तेल	6302.00	5713.00	-9.35%
एल्युमीनियम	210	206.6	-1.62%
तांबा	742.55	738.55	-0.54%

## साप्ताहिक समीक्षा

कमजोर आर्थिक विकास और आंकड़ों को लेकर कमोडिटीज में प्रतिक्रिया हुई और कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट हुई। सीआरबी इंडेक्स 285 से नीचे बंद हुआ। कारोबारियों ने पहले ही 25 बेसिस प्वाइंट की उम्मीद की थी। फंड ने संकेत दिया कि वह आगे की बढ़ोतरी को रोक सकता है। दर बढ़ोतरी पर ठहराव से अधिकारियों को हाल के बैंक विफलताओं के नतीजों का आकलन करने, अमेरिकी ऋण सीमा पर एक राजनीतिक गतिरोध के समाधान की प्रतीक्षा करने और मुद्रास्फीति की निगरानी करने का समय मिलेगा। पॉवेल ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिकी आर्थिक विकास तेजी से धीमा हो रहा है और संभवतः इस साल मंदी को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस चेतावनी ने जोखिम वाली संपत्तियों के प्रति सेंटिमेंट को प्रभावित किया। पॉवेल द्वारा अर्थव्यवस्था को लेकर लचीले बयान के कारण सभी बेस मेटल की कीमतों पर दबाव पड़ा। चीन से भी कमजोर संकेत मिल रहा है। कैंक्सन मैनुफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अप्रैल में गिरकर 49.5 पर आ गया, जो 50.3 के अनुमान से कम है। यह मार्च के 50.0 के आंकड़ों से भी है। कमजोर आंकड़ों के पीछे सुस्त मांग सबसे बड़ा कारक रहा है जबकि उच्च इन्वेंट्री स्तर और कमजोर खरीदारी के बीच स्थानीय निर्माताओं ने उत्पादन घटा दिया है। ऑटो, पैकेजिंग और निर्माण क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली धातु की सुस्त मांग के बीच उत्पादन में वृद्धि और भंडार में वृद्धि के कारण जनवरी के बाद से एल्युमीनियम की कीमतों में 12% की गिरावट हुई है। ऊर्जा काउंटर में नेचुरल गैस और कच्चे तेल दोनों की कीमतों में अधिक गिरावट हुई। फेडरल रिजर्व द्वारा जून से दर वृद्धि पर रोक को लेकर बिना किसी स्पष्ट संकेत के महामारी के बाद लगातार दसवीं बार दर वृद्धि की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में 10% से अधिक गिरावट हुई। बुलियन के लिए यह एक मजबूत सप्ताह था, विशेष रूप से सोने के लिए जो अब तक के उच्चस्तर पर चला गया। सोने की कीमतें कॉमेक्स में 2085.4 डॉलर और एमसीएक्स में 61898 रू की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। फंड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने चेतावनी दी है कि आर्थिक विकास कमजोर हो रहा है। इस कारण सुरक्षित निवेश के लिए मांग में बढ़ोतरी से फायदा हुआ है।

कृषि कमोडिटीज में, यह मसालों के लिए एक अच्छा सप्ताह था। निर्यात मांग बढ़ने से हल्दी की कीमतों में तेजी आई। निर्यात पछताह में सुधार हुआ है क्योंकि लगातार गिरावट के बाद भारतीय कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गई हैं। भारत ने पिछले वर्ष के 10.3 हजार टन के मुकाबले फरवरी-23 में लगभग 14.8 हजार टन हल्दी का निर्यात किया। कम कैरीओवर स्टॉक और बाजार में सामान्य से कम आवक के कारण जीरा की कीमतें 46320 के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण राजस्थान में उपज नुकसान और फसल क्षति की रिपोर्ट के बाद धनिया में हाजिर और वायदा बाजार दोनों में शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई। कई सप्ताह की गिरावट के बाद ग्वार में खरीददारी लौटी है। वर्ष 2023 में मानसून के शुष्क दौर की बढ़ती संभावनाओं के कारण ग्वार की कीमतों में मजबूती देखी गई। आने वाले महीनों में अल नीनो मौसम की घटना के विकसित होने की संभावना बढ़ गई है।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	28.04.2023	04.05.2023	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	2,214.55	2,170.40	-1.99%
चना	दिल्ली	5,025.00	5,051.40	0.53%
धनिया	कोटा	6,627.30	6,701.40	1.12%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	866.20	881.60	1.78%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,374.35	1,409.05	2.52%
ग्वारसीड	जोधपुर	5,514.40	5,724.85	3.82%
ग्वारगम	जोधपुर	11,013.40	11,541.20	4.79%
जीरा	ऊझा	43,319.90	45,359.20	4.71%
सरसों	जयपुर	5,131.40	5,294.50	3.18%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	955.00	970.00	1.57%
सोयाबीन	इंदौर	5,415.95	5,475.40	1.10%
हल्दी	निजामाबाद	6,755.15	6,985.55	3.41%
गेहूं	दिल्ली	2,306.45	2,298.65	-0.34%
कॉटन	कड़ी	29,401.00	29,472.70	0.24%
कॉटनऑयलसीडकेक अकोला		2,800.35	2,836.75	1.30%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	28.04.2023	04.05.2023	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2356.00	2287.00	-2.93%
तांबा	LME	नकद	8595.50	8493.50	-1.19%
लेड	LME	नकद	2148.00	2101.50	-2.16%
निकल	LME	नकद	24219.00	23997.00	-0.92%
जिंक	LME	नकद	2647.50	2622.50	-0.94%
सोना	COMEX	जून	1999.10	2055.70	2.83%
चांदी	COMEX	जुलाई	25.23	26.23	3.97%
लाइट क्रूड	NYMEX	जून	76.78	68.56	-10.71%
नेचुरल गैस	NYMEX	जून	2.41	2.10	-12.82%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	28.04.2023	04.05.2023	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	14.44	14.48	0.28%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	51.61	52.27	1.28%
कॉटन	ICE	जुलाई	79.03	79.99	1.21%
सीपीओ	BMD	जुलाई	3,338.00	3,425.00	2.61%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	27.04.2023 क्वांटिटी	04.05.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	550	550	0
कैस्टर सीड	मी.टन	3960	4067	107
चना	मी.टन	4563	5824	1261
धनिया	मी.टन	14690	14768	78
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	15586	15601	15
ग्वारगम	मी.टन	23112	22942	-170
ग्वारसीड	मी.टन	0	42	42
जीरा	मी.टन	5739	6343	604
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉग	मी.टन	1933	1933	0
हल्दी	मी.टन	966	936	-30

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	28.04.2023 क्वांटिटी	04.05.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	1204	576	-628
तांबा	मी.टन	729629	674014	-55615
सोना	किग्रा	325	325	0
सोना मिनी	किग्रा	2848	2848	0
सोना गिनी	किग्रा	110500	48500	-62000
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	34685	142645	107960
चांदी एम	किग्रा	42003	40627	-1375
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 28.04.2023	स्टॉक की स्थिति 04.05.2023	अंतर
एल्युमीनियम	566200	563300	-2900.00
तांबा	66350	67775	1425.00
निकल	40014	39630	-384.00
लेड	32300	32600	300.00
जिंक	52925	52125	-800.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मई	45290.00	14.03.23	तेजी	32000.00	44300.00	-	44000.00
NCDEX	हल्दी	मई	7428.00	06.04.23	तेजी	7035.00	7200.00	-	7150.00
NCDEX	ग्वारसीड	मई	5670.00	29.03.23	मंदी	5650.00	-	5800.00	5850.00
NCDEX	कैस्टरसीड	मई	6075.00	26.04.23	मंदी	6120.00	-	6170.00	6200.00
NCDEX	स्टील लांग	मई	45400.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	46800.00	47000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मई	2790.00	11.04.23	मंदी	2800.00	-	2880.00	2900.00
MCX	मेंथा ऑयल	मई	967.40	14.03.23	मंदी	1015.00	-	980.00	985.00
MCX	बुलडेक्स	मई	16813.00	13.03.23	तेजी	15500.00	16400.00	-	16350.00
MCX	चांदी	जुलाई	76929.00	13.03.23	तेजी	64000.00	74500.00	-	74000.00
MCX	सोना	जून	61493.00	13.03.23	तेजी	57000.00	60400.00	-	60200.00
MCX	मेटलडेक्स	मई	16764.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	16380.00	16800.00	-
MCX	तांबा	मई	738.55	19.04.23	मंदी	775.00	-	744.00	748.00
MCX	लेड	मई	183.30	20.04.23	साइडवेज	185.00	180.00	190.00	-
MCX	जिंक	मई	235.10	19.04.23	मंदी	252.00	-	242.00	245.00
MCX	एल्युमिनियम	मई	206.60	25.04.23	मंदी	210.00	-	210.00	212.00
MCX	कच्चा तेल	मई	5689.00	19.04.23	मंदी	6500.00	-	5950.00	6000.00
MCX	नेचुरल गैस	मई	174.20	30.03.23	साइडवेज	177.00	170.00	190.00	-

\*04/05/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### कच्चा तेल ( मई ) एमसीएक्स



### कच्चा तेल ( मई ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 6841.00

निचला स्तर: 5414.60

एमसीएक्स में कच्चा तेल ( मई ) कॉन्ट्रैक्ट 04 मई 2023 को 5689.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6142.59 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 24.24 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

5480.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 6000.00 रु के टारगेट के लिए 5640.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### धनिया ( जून ) एनसीडीईएक्स



### धनिया ( जून ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6918.00

निचला स्तर: 6410.00

एनसीडीईएक्स में धनिया ( जून ) कॉन्ट्रैक्ट 04 मई 2023 को 6774.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6692.11 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 57.241 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

7050.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 6450.00 रु के टारगेट के लिए 6850.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### तांबा ( मई ) एमसीएक्स



### तांबा ( मई ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 794.50

निचला स्तर: 731.25

एमसीएक्स में तांबा ( मई ) कॉन्ट्रैक्ट 04 मई 2023 को 738.55 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 751.98 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 32.65 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

753.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 730.00 रु के टारगेट के लिए 745.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

जुलाई-अगस्त 2023 के दौरान अलनीनो की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन संभावनाओं के कारण हल्दी (जून) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। वर्ष 2022-23 में हल्दी का उत्पादन पहले से ही 7% -10% कम है और मौसम की घटनाओं पर बढ़ती चिंताओं के कारण आगामी सीजन में अधिक गिरावट होने की संभावना है। हल्दी का रकबा अन्य खरीफ फसलों की ओर स्थानांतरित हो सकता है जिससे उत्पादन में गिरावट आएगी। इसके अलावा, विशेष रूप से बांग्लादेश, मोरक्को और ईरान से निर्यात पृष्ठताछ में सुधार हुआ है, जिससे कीमतों की तेजी को समर्थन मिल सकता है। भारत ने पिछले वर्ष के 10.3 हजार टन के मुकाबले फरवरी-23 में लगभग 14.8 हजार टन हल्दी का निर्यात किया। भारी स्टॉक के कारण कीमतों की अधिक बढ़त पर रोक लग सकती है। हल्दी की कीमतें 7200-8000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

जीरा (जून) वायदा की कीमतों में अस्थिरता रहने की संभावना है क्योंकि उच्च स्तर पर कुछ मुनाफावसूली देखी जा सकती है क्योंकि छोटे व्यापारी गुजरात और राजस्थान में जीरे की मौसमी आपूर्ति में वृद्धि की संभावना से थोक खरीद से परहेज कर रहे हैं। कम कैरीओवर स्टॉक और बाजार में सामान्य से कम आवक के कारण प्रमुख रूझान अभी भी तेज है जो मिलों और स्टॉकिस्टों को गिरावट पर खरीदने के लिए आकर्षित करेगा। राजस्थान और गुजरात में हाल ही में हुई बारिश के बाद नई फसल की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। जीरा की कीमतें पिछले एक साल में दोगुनी हो गई हैं और आपूर्ति में मौजूदा कमी की चिंताओं के कारण अभी भी बढ़त दर्ज करने की संभावना है। जीरा (जून) वायदा की कीमतों के 42000-51000 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

हाजिर बाजार में उभरती मांग के कारण धनिया वायदा (जून) की कीमतों के साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण राजस्थान में फसल क्षति की रिपोर्ट के बाद बाजार में शॉर्ट कवरेज शुरू हुई है। बेमौसम बारिश के कारण राजस्थान और गुजरात में उपज नुकसान से उत्पादन में गिरावट हो सकती है। धनिया की कीमतों में बढ़त अस्थायी दिख रही है क्योंकि वर्ष 2022-23 के दौरान गुजरात में धनिया का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 81% बढ़कर 376 हजार टन होने का अनुमान है। धनिया (जून) वायदा की कीमतें 6500-7300 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### अन्य कमोडिटीज

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति घटने के कारण कपास की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार होने की संभावना है। कमजोर उत्पादन के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर कपास की आवक में कमी आई है, जिससे कपास के लिए बाजार का रूझान तेज बना हुआ है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2022-23 में कपास का उत्पादन पिछले वर्ष के 307 लाख गांठ की तुलना में 303 लाख गांठ होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में अब तक कुल आवक में साल-दर-साल 40% से अधिक की कमी आई है। लेकिन कीमतों में बढ़त सीमित रहने की संभावना है क्योंकि कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण और सुस्त निर्यात मांग का बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ने की संभावना है। कपास निर्यात पिछले वर्ष के 43 लाख गांठ की तुलना में वर्ष 2022-23 में 25 लाख गांठ रहने की संभावना है। एमसीएक्स पर कॉटन (जून) की कीमतों के 62500-66000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है, जबकि कपास (अप्रैल 24) वायदा की कीमतों के 1580-1670 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में घटती आपूर्ति के कारण कॉटनसीडऑयलक्रेक (जून) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। कपास के उत्पादन में गिरावट से कपास के बीज के उत्पादन में भी कमी आने की संभावना है। कॉटनसीडऑयलक्रेक खली की कीमतें 2650-2930 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

वर्ष 2023 में मॉनसून के शुष्क दौर की बढ़ती संभावनाओं के कारण ग्वारसीड (जून) वायदा के तेजी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि आने वाले महीनों में अल नीनो मौसम की घटना के विकसित होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर उच्च तापमान और संभवतः रिकॉर्ड तापमान हो सकता है। एल नीनो वर्ष के दौरान भारत में लगभग 60% सूखे की संभावना होती है, और जबकि सामान्य बारिश की संभावना 10% कम होती है, सामान्य से कम बारिश की संभावना 30% होती है। शुष्क मानसून से वर्ष 2023 में ग्वारसीड की बुवाई की प्रगति और उपज पर सीधे प्रभाव पड़ने की संभावना है। किसानों के पास भारी स्टॉक होने और ग्वारगम के लिए कमजोर निर्यात पृष्ठताछ के कारण ग्वार में बढ़त सीमित रहने की संभावना है। ग्वारसीड की कीमतें निकट भविष्य में 5400-6000/6200 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि ग्वारगम की कीमतें 10500-12500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

उत्तर भारत में तापमान में गिरावट के साथ बुवाई में बढ़ती संभावनाओं के आंकड़ों पर नजर रखने के कारण मंथा तेल वायदा में मिला-जुला कारोबार कर रहा है। हाल की बारिश बुवाई गतिविधियों के लिए अनुकूल साबित हुई है जो कीमतों पर दबाव बनाएगी। मेन्थॉल के आयात में बढ़ती संभावना से भी बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है। मंथा तेल की कीमतें 940-1005 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

जुलाई-अगस्त में मौसम की बढ़ती चिंताओं के कारण अरंडी वायदा (जून) की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार होने की उम्मीद है। मई कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कवरेज की उम्मीद है, जबकि जून कॉन्ट्रैक्ट में मौसम की चिंताओं के कारण नया लागू पोजिशन बन रहा है। लेकिन अरंडी तेल के अधिक उत्पादन और सीमित निर्यात मांग से कीमतों पर दबाव रहेगा। वर्ष 2023 में कुल उत्पादन 18.82 लाख टन होने का अनुमान है जो साल-दर-साल 16% अधिक है। अरंडी (जून) वायदा की कीमतों को 5900 के स्तर पर सपोर्ट बने रहने की संभावना है और निकट अवधि में 6300 के स्तर पर रेजिस्टेंस रह सकता है।

### सर्पाफा

पिछले कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो लगभग दो महीनों में अपने सबसे बड़े साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुई है। फेड द्वारा अपने दर वृद्धि को सख्त करने के अभियान में संभावित ठहराव के हालिया संकेतों ने सोने में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। जैसा कि व्यापारी आंकड़ों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वे दर में संभावित कटौती को सही ठहराने के लिए सक्रिय रूप से अमेरिका से कमजोर आंकड़ों की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन फेड चेयर जेरोम पावेल ने इस वर्ष दर में कटौती की बाजार की उम्मीदों को कमजोर कर दिया और यह कहा कि भविष्य के मौद्रिक नीति के निर्णयों को निर्धारित करने के लिए आने वाले आंकड़ों पर नजर रखेगा। पावेल की टिप्पणियों के बावजूद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ते जोखिमों के कारण निवेशकों की ओर से सोने की अधिक मांग हो रही है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल चुनौतीपूर्ण है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। निवेशक फेड की ब्याज दर नीति को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि दर में बढ़ती संभावना से सोने की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बढ़ती चिंताओं और दरों में कटौती को सही ठहराने के लिए कमजोर आंकड़ों की संभावना के साथ, सोने के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। सोने चांदी का अनुपात 80 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि सोने के मुकाबले चांदी का मूल्य कम है। ज्यादातर समय, सोने/चांदी का अनुपात 45 और 85 के दायरे में रहा है। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 2040 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से काफी ऊपर कारोबार कर रही हैं, और वर्तमान संरचना अच्छी दिख रही है और कीमतें 2100 डॉलर तक पहुंच सकती हैं। चांदी की कीमतें 24.660-27.900 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है। इस सप्ताह में एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में खरीदारी जारी रह सकती है, जहां सपोर्ट के पास किसी भी गिरावट को खरीदारी का अवसर माना जाता है और कीमतें 59000-63000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतें 73000-81000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और चीन की ओर से मांग में कमी की आशंकाओं के कारण बाजारों में नाटकीय गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई। दोनों बेंचमार्क में गिरावट हुई, जहां डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 10% की गिरावट हुई। एक व्यापक छूट और बढ़ती मंदी की वार्ता के नए सिरे से अमेरिकी बैंकिंग संकट के नए सिरे से बढ़ते जाने की आशंका, मंदी को लेकर फिर से अटकलों के साथ ही चीन की मैनूफैक्चरिंग गतिविधियों में आश्चर्यजनक कमी के कारण तेल की मांग को लेकर आउटलुक को फिर से कमजोर कर दिया। अप्रैल में चीन के कारखाने की गतिविधि अप्रत्याशित रूप से कम हो गई क्योंकि ऑर्डर कम हो गए और खराब घरेलू मांग के कारण बड़े पैमाने पर धातुओं का उपयोग करने वाला मैनूफैक्चरिंग क्षेत्र कमजोर हुआ है। चीन में सेवा गतिविधि अप्रैल महीने में बढ़ी है लेकिन इस विस्तार की दर धीमी हो गई है। लेकिन जून में अगली ओपेक+ बैठक में संभावित आपूर्ति कटौती की उम्मीदों ने कीमतों को कुछ समर्थन प्रदान किया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा अपने नीतिगत वक्तव्य में अधिक दर बढ़ने की भाषा छोड़ने के बाद, निवेशक अब मोटे तौर पर उम्मीद कर रहे हैं कि फेड अपनी जून की बैठक में दरों में वृद्धि को रोक देगा। आने वाले सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है लेकिन मुख्य रूझान अभी भी नरमी का है और कीमतों के 5400-6000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में हल्के मौसम की स्थिति के बीच पूरे सप्ताह नेचुरल गैस की कीमतों पर दबाव रहा। हल्के मौसम के कारण हार्टिंग उद्देश्यों के लिए नेचुरल गैस की मांग कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नेचुरल गैस का भंडार ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर बना हुआ है, जिसने कीमतों पर दबाव पड़ा है। नेचुरल गैस की कीमतें एक दायरे में रही हैं, और कीमतों के 2.80-3.00 डॉलर के दायरे को किसी भी तरफ पार करने के बाद अगला रूझान तय होगा। इस सप्ताह गैस की कीमतों के 160-200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।



## बेस मेटल

वैश्विक मंदी के बढ़ते डर, शीर्ष उपभोक्ता चीन में सुस्त मांग और आपूर्ति में सुधार से बाजार पर दबाव बढ़ने के कारण बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी मौद्रिक नीति में आक्रामक सख्ती की प्रक्रिया में ठहराव के संकेत के बाद डॉलर में नरमी से कीमतों को समर्थन मिल सकता है। चीन की फैक्ट्री गतिविधि अप्रैल में अप्रत्याशित रूप से कम हो गई क्योंकि ऑर्डर कम हो गए और खराब घरेलू मांग के कारण बड़े पैमाने पर धातुओं का उपयोग करने वाला मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र कमजोर हुआ है। चीन में आर्थिक गतिविधियों में धीमी गति से रिकवरी से बाजार निराश हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस वर्ष की दूसरी छमाही में धीमा होने या यहां तक कि मंदी की चपेट में आने की संभावना है, और बैंकों के वित्तीय जोखिमों का प्रभाव बना रह सकता है। तांबे की कीमतें 725-755 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। कमजोर वैश्विक मांग और तैयार माल के अधिक भंडार, और तांबे की आपूर्ति में सुधार के साथ काउंटर पर दबाव बढ़ सकता है। फिर भी, चिली कॉपर कमीशन ने वैश्विक बाजारों में कमजोर अमेरिकी डॉलर, अनुमानित आपूर्ति जोखिम और चीन में अनुमानित 5% आर्थिक विकास का हवाला देते हुए 2023 में तांबे की औसत कीमतों के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 3.90 डॉलर प्रति पाउंड कर दिया। जिंक की कीमतें 225-242 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लेड की कीमतें 176-186 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। आईएलजेडएसजी के अनुसार विश्व स्तर पर रिफाईंड लेड की मांग 2023 में आपूर्ति से 20,000 टन अधिक हो जाएगी। एल्युमीनियम की कीमतें 195-210 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन वायदा (मई) की कीमतें 43500-47000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। कमजोर वैश्विक संकेतों, बढ़ते आयात और यूई और वियतनाम जैसे प्रमुख बाजारों से अपेक्षित निर्यात प्रस्तावों की तुलना में धीमी मांग के कारण मई में भारतीय स्टील की कीमतों में महीने-दर-महीने 2-4 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

## भारत का कृषि निर्यात..... आत्मनिर्भरता की एक नई पटकथा

आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह किसी भी देश के आर्थिक विकास, रोजगार और भुगतान संतुलन के स्तर को प्रभावित करता है। निर्यात में तीव्र वृद्धि एक अधिक प्रतिस्पर्धी, तकनीकी रूप से परिपक्व, उत्पादक और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर ले जाती है। यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक विकास को लेकर निराशा और अनिश्चितता के बीच निर्यात के मोर्चे पर भारत खुश हो सकता है क्योंकि वित्त वर्ष 23 में जनवरी तक देश का निर्यात पहली बार 43.37 बिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को खोलने और कमोडिटीज की अधिक कीमतों के कारण निर्यातकों को मदद मिली। वित्त वर्ष (अप्रैल 2022-जनवरी 2023) के दौरान, कृषि निर्यात 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान यानी अप्रैल 2021 से 2020 तक के 40.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से 6.04% अधिक है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 के बाद भारत कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है, जिसका 2021-22 में निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात में बाजारों तक पहुंच में वृद्धि और सरकार द्वारा लक्षित प्रयासों के तहत भारत से प्रसंस्कृत खाद्य की वैश्विक पहुंच के विस्तार से निर्यात को बढ़ावा मिला। यूक्रेन में युद्ध, समुद्री परिवहन में बाधा और तेल और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण अनाज की कीमतों में उछाल दर्ज की गई जिससे लगता है कि पिछले साल मई में भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर और उसके बाद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद प्रीमियम बासमती चावल की दरों में वृद्धि हुई है।



स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निर्यात में वृद्धि बासमती चावल के निर्यात में मूल्य के संदर्भ में 16% की वृद्धि, दालों के निर्यात में आश्चर्यजनक रूप से 92% की वृद्धि और ताजी सब्जियों के निर्यात में 25% की वृद्धि के कारण हुई जो मुख्य रूप से अमेरिका, यूई और चीन की ओर से मांग के कारण हुई।

औषधीय गुणों वाले अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, हल्दी और केसर जैसे मसालों के निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है। इस बीच, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ने कहा कि झींगा निर्यात पिछले साल के कुल निर्यात मूल्य का लगभग 88 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

2022-23 के दौरान भारत में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड क्रमशः 3235, 278 और 400 लाख टन होने का अनुमान है।

## यह कैसे हुआ?

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाले सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के निरंतर और ठोस प्रयास अत्यधिक सहायक रहे हैं। भारतीय मिशनों के माध्यम से भारत विदेशों में कदम रखने में सक्षम रहा है और बढ़ी हुई वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए आभासी खरीदारों-विक्रेताओं की बैठकों के माध्यम से बातचीत की, कई बाधाओं को दूर किया, बंदरगाह / सीमा शुल्क / राज्य / जिला अधिकारियों आदि के साथ समन्वय किया। इन सभी प्रयासों के कारण भारत खाद्य और अन्य आवश्यक कृषि उत्पादों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा।

किसानों/एफपीओ को प्रत्यक्ष निर्यात बाजार से जोड़ने और निर्यातोन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 46 अद्वितीय उत्पाद-जिला क्लस्टरों को निर्यात प्रोत्साहन के लिए अधिसूचित किया गया है। किसानों को उनकी उपज के निर्यात में हिस्सेदारी देने के लिए पहली बार सरकार सीधे क्लस्टर और खेत स्तर पर पहुंची है।

कृषि निर्यात में वृद्धि से किसानों की आय में सुधार होता है और उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसानों को निर्यात से लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओ/एफपीसी) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ सीधे बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल शुरू किया है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिस्चर्च एनॉलिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिस्चर्च एनॉलिसिस के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीटि द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिस्चर्च एनॉलिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिस्चर्च एनॉलिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिस्चर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।